



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 18, 2007/आश्विन 26, 1929

No. 318]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 18, 2007/ASVINA 26, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2007

विषय : मलेशिया, थाईलैंड, चीन और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 14" तथा 21" (फ्लैट) आकार की कैथोड रे रंगीन पिक्चर ट्यूबों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

सं. 14/8/2006/डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) ने उपरोक्त नियमावली के तहत मलेशिया, थाईलैंड, चीन तथा कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 14" तथा 21" (फ्लैट) आकार की कैथोड रे रंगीन पिक्चर ट्यूबों के कथित पाटित आयातों के संदर्भ में दिनांक 25 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना के तहत जांच प्रारंभ की है। यह जांच घरेलू उद्योग की ओर से मेसर्स सेमटेल कलर लिमिटेड (जिसे इसके बाद याचिकाकर्ता कहा गया है) से प्राप्त लिखित आवेदन के आधार पर शुरू की गई थी जिसमें मलेशिया, थाईलैंड, चीन और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 14" तथा 21" (फ्लैट) आकार की कैथोड रे रंगीन पिक्चर ट्यूबों के पाटन का आरोप लगाया गया है ।

2. प्राधिकारी ने 14" तथा 21" (फ्लैट) आकार की कैथोड रे रंगीन पिक्चर ट्यूबों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच आरंभ करते हुए दिनांक 25 सितम्बर, 2007 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी। मलेशिया, थाईलैंड, चीन तथा कोरिया गणराज्य (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 85 के उपशीर्ष सं. 8504.11 तथा आई टी सी एच एस वर्गीकरण नियम के तहत आता है। मौजूदा मामले में विचाराधीन उत्पाद 14" तथा 21" (फ्लैट) आकार (अर्थात् 21" फ्लैट प्रकार तथा 14" पारंपरिक) की कैथोड रे रंगीन पिक्चर ट्यूबें हैं (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तुएं कहा गया है) याचिका मेसर्स सेमटेल कलर लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई थी ।

3. याचिकाकर्ता ने मलेशिया, थाईलैंड, चीन तथा कोरिया गणराज्य से संबद्ध उत्पादों के आयातों के संदर्भ में इन पाटनरोधी जांचों को समाप्त करने के लिए अपने दिनांक 3 अक्टूबर, 2007 के पत्र के तहत एक लिखित अभ्यावेदन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है ।

4. पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(क) में प्रावधान है कि प्रभावित घरेलू उद्योग, जिनके आवेदन पर जांच प्रारंभ की गई थी, से अथवा उसकी ओर से जांच समाप्त करने के बारे में लिखित आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके जांच को तुरंत समाप्त कर देंगे ।

5. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच कथित पाटन तथा क्षति के संदर्भ में घरेलू अद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स सेमटेल कलर लिमिटेड की ओर से प्रस्तुत पूर्णतः प्रलेखित अनुरोध के आधार पर प्रारंभ की गई थी। अब उसी आवेदक ने मौजूदा जांच को समाप्त करने के लिए लिखित निवेदन प्रस्तुत किया है।

6. अतः उपर्युक्त पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(क) के अनुसरण में प्राधिकारी दिनांक 25 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. 14/8/2006-डी जी ए डी के तहत प्रारंभ की गई जांच तथा इस मामले से संबद्ध सभी कार्यवाहियों को समाप्त करते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2007

Sub. : Anti-dumping investigations concerning imports of Cathode Ray Colour Picture Tubes of 14" and 21" (flat) sizes originating in or exported from Malaysia, Thailand, China and Korea RP.

No. 14/8/2006-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof, the Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority), under the above Rules, initiated an investigation *vide* notification dated 25th September, 2007 into the alleged dumped imports of Cathode Ray Colour Picture Tubes of 14" and 21" (flat) sizes originating in or exported from Malaysia, Thailand, China and Korea RP. The investigation was initiated on the basis of a written application received from M/s. Samtel Color Limited, (hereinafter referred to as petitioner) on behalf of domestic industry, alleging dumping of Cathode Ray Colour Picture Tubes of 14" and 21" (flat) sizes originating in or exported from Malaysia, Thailand, China and Korea RP.

2. The Authority issued a public notice dated 25th September, 2007 initiating Anti-dumping investigations concerning imports of Cathode Ray Colour Picture Tubes of 14" and 21" (flat) sizes. The subject goods falls under Chapter 85 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading No. 8540.11 of and under ITC HS Classification Rule, originating in or exported from Malaysia, Thailand, China and Korea RP (hereinafter referred to as subject countries). The product under consideration in the present case was Cathode Ray Colour Picture Tubes of 14" and 21" (flat) sizes (i.e., 21" flat type and 14" conventional) (also referred to as subject goods hereinafter). The petition had been filed by M/s. Samtel Color Limited.

3. The petitioner *vide* their letter dated 3rd October, 2007 has made a written submission before the Authority requesting termination of these anti-dumping investigations concerning imports of the subject goods from Malaysia, Thailand, China and Korea RP.

4. Rule 14 (a) of the Anti-dumping Rules provides that the Authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately, if it receives a request in writing for doing so, from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated.

5. The Authority notes that the investigation into alleged dumping and injury was initiated on the basis of fully documented written request filed on behalf of M/s. Samtel Color Limited representing the Domestic Industry. The same applicant has now made a written submission requesting termination of present investigations.

6. Therefore, in terms of Rule 14 (a) of the Anti-dumping Rules above, the Authority hereby terminates the investigation initiated *vide* notification No. 14/8/2006-DGAD dated 25th September, 2007 and all proceedings connected with this case.

R. GOPALAN, Designated Authority